



दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम के तहत जनपदीय पुलिस ने 'मॉर्निंग वॉक' कर जाना जनपदवासियों का हाल



छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वॉक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि 'मित्र पुलिस' के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव की पहल पर जनपद में संचालित किये जा रहे \*गुड मॉर्निंग महोबा\* कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 13.01.2021 को जनपदीय पुलिस ने 'गुड मॉर्निंग महोबा' कहकर लोगों का अभिवादन किया और क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे बड़े/बुजुर्ग/महिलाएँ/बच्चों से बात की व उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। समस्त थानों की गुड मॉर्निंग टीमों द्वारा





दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## पनवाड़ी पुलिस ने जिला बदर अपराधी को तमंचा/कारतूस सहित किया गिरफ्तार



आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे जिला बदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० पनवाड़ी श्री विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराहियान के जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा दिनांक 30.12.2020 से 06 माह के

लिये जिला बदर अपराधी राघवेन्द्र सिंह पुत्र पन्ना लाल राजपूत नि० बुडेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को निसवारा नाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध जिला बदर की शर्तों का उल्लंघन करने पर मु.अ.स 08/2021 धारा 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का अभियोग एवं मु.अ.स 09/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार जिला बदर अपराधी का विवरण:-

राघवेन्द्र सिंह पुत्र पन्ना लाल राजपूत नि० बुडेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1- व०उ०नि० अनुरुद्ध प्रताप सिंह | 2- उ०नि० विनोद सिंह |
| 3.का० अजीत सिंह                 | 4. का० अभिषेक यादव  |

### अपराधिक इतिहास अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह पुत्र पन्ना लाल राजपूत उपरोक्त-

1. मु.अ.स 69/19 धारा 308 भादवि थाना पनवाड़ी।
2. NCR नं० 149/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना पनवाड़ी।
3. मु.सि.सि.नं० 136/18 धारा 110जी सीआरपीसी थाना पनवाड़ी।
4. मु.अ.स 08/2021 धारा 10 यूपी गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम थाना पनवाड़ी।
5. मु.अ.स 09/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पनवाड़ी।



दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## महोबकण्ठ पुलिस ने गिरफ्तार किया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारन्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 सुनील कुमार मय हमराह हो0गा0 एसीसी ओम प्रकाश के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अटल बिहारी उर्फ हल्के भाई पुत्र राम किशुन उर्फ किसन पाठक उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ, सम्बन्धित मु0न0 703/18 व अ.सं. 55/2014 धारा 452/324/323/504/506/427 भादवि को ग्राम छितरवारा से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अटल बिहारी उर्फ हल्के भाई पुत्र राम किशुन उर्फ किसन पाठक उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम छितरवारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. हो0गा0 एसीसी ओमप्रकाश



दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## खन्ना पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त



आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वारंटी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० खन्ना श्री शिवआसरे द्वारा गठित टीम उ०नि० त्रिभुवन सिंह मय हमराह के मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर वाँछित अभियुक्त रामजी पुत्र कल्लू गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा, सम्बन्धित मु०अ०स० 03/21 धारा 376/504/506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 67 आईटी एक्ट को बस स्टैण्ड ग्योड़ी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रामजी पुत्र कल्लू गुप्ता उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. श्री त्रिभुवन सिंह
2. का. विकास कुमार



दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## “मिशन शक्ति” टीम द्वारा छात्रों को छेड़खानी/छीटाकशी न करने की दी हिदायत साथ ही छात्राओं को दिये सुरक्षा/कानून सम्बन्धी जानकारी



आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपद में संचालित हो रहे “मिशन शक्ति” महाभियान कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी मिशन शक्ति निरीक्षक श्रीमती रचना सिंह मय टीम द्वारा पटेल शिक्षण संस्थान इन्टर कालेज, नरौरा श्रीनगर में जाकर छात्राओं को नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा उन्हें महिला हेल्पलाइन नम्बर- 1090,181,112,1076 आदि नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही टीम द्वारा मौजूद छात्रों को लड़कियों पर छीटाकशी/छेड़खानी करने व महिला सम्बन्धी अपराध करने से बचने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि कानून सभी

के लिए बराबर है। बाल अपराध के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी होने पर तुरन्त चाइन्ड केयर नं0 1098 पर फोन कर सकते हैं।





दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कबरई, कुलपहाड, महोबकंठ व खरेला थाना क्षेत्र के गाँव में चौपाल लगाकर सुनी गई जन-समस्याएँ तथा किया गया शस्त्र-सत्यापन/H.S. की चेकिंग...

आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड श्री रविन्द्र तिवारी, चौकी प्रभारी बेलाताल उ0नि0 अनमोल सिंह के द्वारा ग्राम बछेछर खुर्द, जैतपुर में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा ग्राम छानीकला में, थानाध्यक्ष महोबकंठ दिनेश सिंह द्वारा ग्राम भोजपुर, घटेरा, छितरवारा में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला द्वारा मय फोर्स के साथ ग्राम ऐंचाना आदि गाँव में जाकर आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर शस्त्र-सत्यापन, हिस्ट्रीशीटों की चेकिंग, पुराने विवाद, अपराधियों की गतिविधियाँ पर कड़ी नजर तथा ग्राम वासियों के साथ चौपाल लगाकर गांव के लोगो की समस्याओं को सुना गया तथा ग्रामवासियों से आपस में शांति-व्यवस्था बनाये रखने एवं पंचायत चुनाव शान्ति को पूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गयी।





दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## थाना श्रीनगर पुलिस ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-



पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत अवैध शराब/जुआ में लिप्त अपराधी गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 13.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित ने मुखबिर खास की सूचना पर बिलरही तिराहा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा से अभियुक्त भगवानदास उर्फ भोले पुत्र रामसेवक रैकवार निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद की गयी। जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 009/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी-** अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद।

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 हेमराज सिंह
2. कां0 आशीष पाल

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

भगवानदास उर्फ भोले पुत्र रामसेवक रैकवार निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा उम्र 38 वर्ष।



दिनांक:- 13.01.2021


# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा चेकिंग अभियान के तहत पैदल गस्त करके चेक किये गये संदिग्ध एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर किये गये ई-चालान

समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में पैदल गस्त कर संदिग्धों/अराजक तत्वों/होटल/ढाबा/मुख्य बाजार आदि जगहों की चेकिंग की गई, इसके साथ ही आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल/शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराये जाने के क्रम में बार्डर पर बैरियर लगाकर आने-जाने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग व पूछताछ की गई। **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **व्यक्तियों 37 से 5300/-रु०** जुर्माना व **32 ई-चालान किये गये।**



आज दिनांक 13.01.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री राजकुमार पाण्डेय द्वारा प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री अनिल सिंह के साथ तथा इसी क्रम में जनपद के



दिनांक:- 13.01.2021

# MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



## Good MORNING Mahoba



महोबा पुलिस



गुड मॉर्निंग टीमों क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छात्र/छात्राओं से मॉर्निंग वाक के दौरान उनकी पढ़ाई/परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी वार्ता की गई एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराया गया। इस पहल से जनपदवासियों एवं पुलिसकर्मियों के मध्य संवाद हो रहा है, जिससे महोबा पुलिस की छवि 'मित्र पुलिस' के रूप में उभर रही है। 'गुड मॉर्निंग महोबा' कार्यक्रम पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद की कमी को भी दूर कर रहा है।



दिनांक 13.01.2021



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330